

October 16, 2020

The Secretary Bombay Stock Exchange Limited

Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

The Secretary National Stock Exchange of India Ltd

Exchange Plaza 5th Floor, Plot no C/1, G Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051.

Subject: Newspaper publication - Board meeting intimation

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of Board meeting intimation" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For Coforge Limited

(Erstwhile NIIT Technologies Limited)

Lalit Kumar Sharma

Company Secretary & Legal Counsel

Encl: as above



Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices

For details, SMS reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



Insight Out



business-standard.com



E-Auction/ Tender for Sale of Scrap

Visit www.vedantalimited.com

VEDANTA LIMITED

(Formerly known as Sesa Sterlite Limited/ Sesa Goa Limited) REGISTERED OFFICE: 1st Floor, 'C' wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects

Chakala, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra

EXPRESSION OF INTEREST

Vedanta Limited (formerly known as Sesa Sterlite Ltd), a subsidiary of Vedanta resources plc. is one of the world's leading diversified natural resource companies with business operations in India, South Africa, Australia, Ireland, Namibia, Liberia and Sri Lanka. Vedanta is a leading producer of Oil & Gas, Zinc, Lead, Silver, Copper, Iron Ore, Aluminium and Commercial power.

Vedanta limited which is the leading producer of Alumina, Aluminium and Commercial Power in India invites Expression of Interest for E-Auction/Tender for Sale of Al. Dross, E-waste Scrap, Used battery scrap, Used oil scrap, Mix packing scrap, Mix Ms Scrap, Wooden Scrap, Jumbo bag scrap (GPL, Vizag) and other miscellaneous scrap items.

Material Inspection by party : 16.10.2020 to 21.10.2020 (working hours)

Last Date of submitting Tender/CMD: 21.10.2020 (up to 5.00 PM) E-auction Date : 22.10.2020

The interested parties may contact on below mentioned number.

Matex Net Pvt Ltd

Phone: - 09831448506, 09437284458 Vedanta Limited

Phone: - 917846OO24, 9937O59422

Coforge Limited Coforge (erstwhile NIIT Technologies Limited)

CIN: L72100DL1992PLC048753 Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravidas Marg, Kalkaii, New Delhi-110019.

Ph: 91 (11) 41029297 Fax: 91 (11) 26414900 Email: investors@coforgetech.com
Website: https://www.coforgetech.com NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Clause 47(1)(a) of the Securities 8 Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, October 22, 2020, to consider and approve the un audited consolidated and standalone financial results of the Company for the quarter/half year ended September 30, 2020, subject to Limited Reviev Report by Auditors and to transact such other business, as may be required. The trading window shall re-open 48 hours after the declaration of financia

The said notice may be accessed on the Company's website https://www.coforgetech.com/investors/disclosures-under-listingregulations and also on the website of National Stock Exchange a https://www.nseindia.com/and/BSE/Limited at https://www.bseindia.com/

For Coforge Limited

Dated: October 15, 2020 Lalit Kumar Sharma

Company Secretary & Legal Counse



के आई ओ सी एल लिमिटेड KIOCL LIMITED (A Government of India Enterprise) CIN-L13100KA1976GO1002974, Regd. & Corporate Office: Il Block, Koramangal Bangalore – 560 034. Karnataka State, INDIA

No. KIOCL/TS/BFU/PDS/PKG-10/F-542/ET-233 MSTC E-Commerce Portal Tender No. KIOCL/20-21/ET/233

OPEN TENDER NOTICE

KIOCL LIMITED, invites sealed Bids on turnkey Basis from experienced, reputed and competent contractors /firms/ agencies for carrying out Design, Engineering, Manufacture, Supply, Erection, Testing and commissioning of Power Distribution System on turnkey basis for proposed KIOCL forward & backward Integration projects at Blast Furnace Unit, Panambur, Mangalore, Karnataka State.

Bidders should submit bid online through MSTC's e-portal http://www.mstcecommerce.com/eprochome/kiocl/buyer_login.jsp within 17.11.2020 up to 5.00 PM. For details visit: www. kioclitd.in, www.eprocure.gov.in & www.meconlimited.co.in

The bidder shall submit their bids through online mode only on MSTC's e-tendering website along with payment of Tender Fee and EMD.

General Manager (P&TS) Email id: bgmcpts@kioclltd.com Mobile No.: +91 9937290883

Cipla

Cipla Limited CIN: L24239MH1935PLC002380

Regd. Office: Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Tel. No.: (022) 2482 6000 • Fax No.: (022) 2482 6120 -mail: cosecretary@cipla.com • Webs

A meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 6th November, 2020 inter alia to consider and approve unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2020.

In terms of the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the "Trading Window" for dealing in the securities of the Company has been closed from 1st October, 2020 till 8th November, 2020 (both days inclusive).

This information is also available on the Company's website i.e. www.cipla.com under Investor section and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For CIPLA LIMITED

Mumbai 15th October, 2020

Raiendra Choora Company Secretary



Branch Pitampura,

[(See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the Union Bank of India (Erst- Corporation Bank), Branch Pitampura, Vardhman Charve Plaza, Plot 22 Kp Block, Community Centre, Pitampura, Delhi-110034 under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 03/07/2019 calling upon the borrower M/s S.K and Sons Through Its Prop. Mr Sanjeev Nath to repay the amount mentioned in the notice being Rs 40,25,323/- (Rs. Forty Lakh Twenty Five Thousand Three Hundred and Twenty Three Only) due as on 03/07/2019 with future interest, costs and incidental expenses within 60 days from the date of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrow and the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement Act rule 2002, on this the 13th day of October of the year 2020

The borrower/ guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India (Erst-Corporation Bank), Branch Pitampura, Vardhma Charve Plaza, Plot 22 KP Block, Community Centre, Pitampura, Delhi-110034 for an amount Rs 40,25,323/- (Rs. Forty Lakh Twenty Five Thousand Three Hundred And Twenty Three Only) and Interest thereon from 03/07/2019.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the immovable/mortgaged property (s)

Equitable mortgage of residential property bearing H No P-164, Khasra no 1010/560, Gali No 07, Bihari colony, Village Chandrawali, Shahdara, Delhi-110032, Boundaries: As per the title deeds

Date: 13-10-2020 Place: Delhi Authorised Officer, UNION BANK OF INDIA

This is to inform members of the public that Mr. Mohit Saraf, Advocate, is no longer a Partner with L&L Partners (formerly Luthra & Luthra law Offices) and is not associated with the Firm in any capacity with effect from the morning of 13th October 2020. Mr. Mohit Saraf has no right to represent the Firm in any capacity whatsoever.

Members of the public who deal with Mr. Saraf treating him as a representative or acting on behalf of L&L Partners in any capacity, do so at their own risk as to costs and consequences. L&L Partners takes no liability for the same

> Rajiv Luthra Founder and Managing Partner, L&L Partners

www.bankofbaroda.in



TENDER NOTICE

Bank of Baroda invites proposals for

1) RFP for procurement of RHEL Premium/Standard Service Level Support and HA Add-On Functionality.

Tender for Procurement of LTO Tapes.

Details are available under Tenders section on Bank's website: www.bankofbaroda.in.

"Addendum", if any, shall be issued on Bank's website under tenders section i.e. on www.bankofbaroda.in. Bidder should refer the same before final submission of the proposal.

Last date for submission of RFP Sr. no. 1 will be 6th November 2020 and Last date for submission of RFP Sr. no. 2 will be 26th

October 2020.

Place: Mumbai Date: 16.10.2020 Chief General Manager (IT Operations)

YASH PAKKA

YASH PAKKA LIMITED (Formerly Yash Papers Limited)

Regd Office: 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur –208001, Uttar Pradesh Corp Office: Yash Nagar, Ayodhya – 224135, Uttar Pradesh CIN: L24231UP1981PLC005294 | T:+915278 258174 nnect@yashpakka.com_ | Website: www.yashpakka.cor E: connect@yashpakka.com | | Websit

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of e held on Saturday, 31st Octob consider and approve Unaudited Financial Result of the Company for the 2nd quarter ended 30th September, 2020. Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations

2015, Trading Window shall remain closed from 1st October, 2020 till 48 hours after declaration of Unaudited Financial Results for the 2nd quarter ended 30th September, 2020 (both days inclusive). The information in the above notice is also available on the website of the

Company www.yashpakka.com and also on BSE Limited for Yash Pakka Limited

Sachin Kumar Srivastava

Date: 15.10.2020 Place: Ayodhya

Company Secretary & Head Legal

www.bankofbaroda.ir



RECRUITMENT NOTICE Bank of Baroda, India's International Bank is looking for

qualified and experienced human resources for the below ositions on Contract basis for its Corporate Office at Baroda Join India's international Bank for a challenging career and become a part of its Growth journey

(A) Product Managers for the Cash Management Department Project Managers/Associate - Smart Cities for the Digita Banking Department

Sn	Name of the Post	Vacancy
1	Vice President-Product Manager- Cash Management	01
2	Assistant Vice President- Product Manager- Cash Management	01
3	Project Manager – Smart Cities	01
4	Project Associate - Smart Cities	01

Terms of Engagement:

Contractual engagement for a period of 3 years, extendable at the option of the Bank. The compensation would be based on experience and suitability of the candidate/s and will not be a limiting factor for the right candidate.

Eligibility criteria:

Interested candidates are advised to visit the Bank's website www.bankofbaroda.in (Career Page) -> Current Opportunities for further details.

The last date of submission of the application is 5th November, 2020 (23:59 hours).

Place: Mumbai Date: 16.10.2020

GENERAL MANAGER - HRM

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकत कार्यालय: 11वीं मंजिल टॉवर ए पेनिन्सला बिजनेस पार्क गणपतराव TATA वर परेल मुबंई - 400013. CIN No.U67190

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत) **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकत अधिकारी दारा वित्ती आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12 नपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) ऋणी(यों) ने अदायगी में तुटि की है अतः ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणतः सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कीई संव्यवहार न करें और यदि कोई व्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज) खर्चे लागत अन्य के अधीन होगा ।

उधारकर्तों का ध्यान प्रतिभत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धार 3 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

जरण खाता क्रं.	वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	भाग सूचना क अनुसार राशि	दिनांक			
9320715	श्री चन्दर मोहन साहवने (ऋणी), श्रीमती प्रिया साहवने एवं श्री करण साहवने एवं श्री जसवीर सिंह (सह-ऋणी)	रु. 1,83,95,196/- दिनांक 28.07.2020 को	13.10.2020			
सुरक्षित आस्तियों /अचल संपत्तियों /गिरवी संपत्तियों का विवरण : संपत्ति के शेष एवं संपूर्ण भाग, मकान						
नं. के-52	२ ए. कालकाजी, नई-दिल्ली 110019, क्षेत्रफल 100.5	वर्गयार्ड,दिनांक 21.0	7.2014 को	ı		

चन्द्रमोहन साहवने के पक्ष में पंजीकृत विलेख में वर्णित अधिक वर्णन

हस्ता./- प्राधिकत अधिकारी दिनांक : 13.10.2020 स्थान : दिल्ली वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कोफोर्ज लिमिटेड Coforge

(पूर्वतः एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड)

CIN: L72100DL1992PLC048753 पंजी. कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019

फोन : 91 (11) 41029297, फैक्स : 91 (11) 26414900 ई-मेल: investors@coforgetech.com वेबसाइट: https://www.coforgetech.com

सूचना

एतदृद्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा विनियमावली, 2015 के क्लॉज 47(1)(क) के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बृहस्पतिवार, 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही/अर्द्ध वर्ष हेतु कम्पनी के अ—लेखापरीक्षित समेकित और पृथक्कृत वित्तीय परिणाम, लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट के अधीन, पर विचार और अनुमोदन तथा अन्य आवश्यक कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। ट्रेडिंग विन्डो, वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद, पुनः खुलेगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट https://www.coforgetech.com/investors/disclosures-under listing-regulations पर तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट https://www.nseindia.com और बीएँसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है |

वास्ते कोफोर्ज लिमिटेड (पूर्वतः एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)

हस्ता /-तिथि : 15 अक्टूबर, 2020 ललित कुमार शर्मा स्थान : नोएडा

कम्पनी सचिव एवं विधिक सलाहकार

सम्पत्तियों की नीलामी सह

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंत्रक के तहत अचल आस्तिय की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना । एतदद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटररों की सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचत सम्पत्ति, जिसका कब्जा असेट रिकेस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल), भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एक असेट रिकस्ट्रक्शन कम्पनी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफासी ऐक्ट, 2002 के प्रावधानों के अधीन प्राप्त किया जा चुका है। आर्सिल ने निम्नवर्णित वित्तीय आस्तियां बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से अधिग्रहीत कर ली हैं और प्रतिभूत लेनदार के अधिकार अर्जित कर लिए हैं। आस्तियां

" "	"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण और कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएंगी :									
क्र. सं.	ऋण खाता नंबर/ बँक का नाम/ वित्तीय संस्था	मूल कर्जदार/ सह–कर्जदार/ जमानतदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	सम्पत्ति का प्रकार/ आकार/प्रकृति	कुल बकाया राशि भारतीय रूपए में	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) भारतीय रूपए में	सुरक्षित मूल्य (रू.) भारतीय रूपए में	निरीक्षण की तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जा का प्रकार
1	एलबीएजीआर 00001206680/ आईसीआईसीआई बैंक लि.	नाहर सिंह / सरोज देवी	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियों –001–बी–ट्रस्ट	भूमिः एन ए निर्मित / फ्लैट ः कर्वड एरिया ४३६.८० वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	रु. 50,42,694.73 05/10/2020 तक	41,400/-	4,14,000/-	30/10/2020	17/11/2020 12:00:00 बजे	भौतिक
प्रर्त	तेभूत सम्पत्ति पता : फ्लैट नंब	र 17, दूसरी तल सि	ाटी सेंटर कॉमर्सियल	ग रेजिडेन्सियल कॉम्प्लेक्स र	स्टेशन रोड़ टूडंला फि	गेजाबाद उत्तर प्रदेः	₹			
2	एलबीएजीआर0001276 278 / आईसीआईसीआई बैंक लि.	सतीश कुमार शर्मा / रमेश कुमार	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियों –001–ए–ट्रस्ट	भूमिः एन ए निर्मित / फ्लैट : कर्वड एरिया 352.30 वर्ग फीट (फ्रीहोल्ड)	रु. 30,88,744.64 05/10/2020 तक	40,000/-	4,00,000/-	30/10/2020	17/11/2020 12:30:00 बजे	भौतिक
प्रर्	तेभूत सम्पत्ति पता : फ्लेट नंब	र 2, प्रथम तल सिर्ट	ो सेंटर कॉमर्सियल रे	रेजिडेन्सियल अपार्टमेन्ट स्टे	शन रोड़ टूडंला फिरो	जाबाद उत्तर प्रदेश				
3	198पीटीएम32098 / 199 एफबीडी32739 / 199एफ बीडी32709 / दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि.	पूजा कुमारी / विक्रम जीत	आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियों –047–ए–ट्रस्ट	इंडिपेंडेंट हाउस भूमि क्षेत्र 1440 फुट।	रु. 1,08,68,279/- 09.10.2020 तक	6,10,000/-	61,00,000/-	30/10/2020	17/11/2020 13:00 बजे	भौतिक
uf	तेभत सम्पत्ति पता : हाउस नंब	ार — १३०२ सेक्टर	नंबर ८ अर्बन एस्टेट	. जिला फरीदाबाद हरियाप	πι					

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना 1 निलामी तिथि यहां ऊपर वर्णित अनुसार 5 ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि उसी दिन नीलामी से 2 घंटा पहले द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर बोली जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान ईएमडी सहित सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट न्य राजिन्दर नगर. नई दिल्ली-110060 द्वारा किए जाने है

नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आहरित कोविद के आधार पर बोलियाँ ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से जमा की जा सकती है शाखा इलाके मे स्थिति किया जाना है kamal.mishra@arcil.co.in, vikram.singh@arcil.co.in, mahamaya.chowdhury@arcil.co.in 8 निरीक्षण का समय 3 नीलामी हेतु वेबसाइट www.arcil.co.in विक्रम सिंह / महामाया चौधरी / कमल मिश्रा

हुए निरीक्षण की तिथि और समय बदला जा समता है) 8860122299 / 9654997601 / 9819820760 बोलीदाता, उपरिवर्णित वेबसाइट पते पर ऑफर / निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके, अपनी पसंद के अनुसार, नीलामी में ऑनलाइन प्रतिमागिता की सुविधा प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन बिडिंग उपरिवर्णित संस्थान की वेबसाइट पर सम्यन्न होगी तथा निविदा दस्तावेज में दिए गए नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के नियम एवं शर्ते हमारी वेबसाइट www.arcil.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा आर्सिल के उपरिवर्णित शाखा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। कृपया नोट करें कि यह बिक्री बिड दस्तावेज में वर्णित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। बिक्री पुर्णतया इस विज्ञापन तथा बिङ / निविदा दस्तावेज में सम्मिलित नियमों एवं शर्तों के तहत होगी। प्राधिकत अधिकारी का बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी

बिड्स अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। यह सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८ तथा ९ के तहत सूचना भी मानी जाएगी। स्थान : उत्तर प्रदेश / हरियाणा तिथि : 16—10—2020

हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

नाम पत्येक सम्पत्ति के सामने ट्रस्त

पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक

(नोट : कोविद-19 स्थिति को देखते

कालम में दर्शाया गया है

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, सीआईएन : U65999MH2002PLC134884 पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, फोन : + 91 2266581300

शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060, फोन : 011-46370444 www.arcil.co.in

TATA STEELBSL



टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड (पूर्व म भूषण स्टाल लामटड)

पंजी. कार्यालयः भूतल, मीरा कॉर्पोरेट सूट्स, प्लॉट नं. 1 एवं 2 ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110065 टेल.: 91-11-39194000, फैक्स: 91-41010050, ई-मेल: tsbsl@tatasteelbsl.co.in वेबसाईट: www.tatasteelbsl.co.in, सीआईएन: L74899DL1983PLC014942

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

		-				रु. कराड़
विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2020	समाप्त तिमाही 30.06.2020	समाप्त तिमाही 30.09.2019	समाप्त छमाही 30.09.2020	समाप्त छमाही 30.09.2019	समाप्त वित्त वर्ष 31.03.2020
	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल राजस्व	5,519.40	2,697.00	4,554.63	8,216.40	8,887.37	18,199.14
अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (कर तथा विशिष्ट मदों से पूर्व)	328.08	(658.23)	(255.89)	(330.15)	(212.40)	(718.19)
कर से पूर्व अवधि के शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	328.08	(658.23)	(255.89)	(330.15)	(142.63)	(649.17)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	328.08	(658.23)	(255.89)	(330.15)	(142.63)	(649.17)
अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिये लाभ/ (हानि) (कर से पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर से पश्चात्) शामिला	328.88	(658.82)	(255.58)	(329.94)	(150.67)	(656.64)
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी [सम मूल्य रु. 2 प्रति शेयर]	218.69	218.69	218.69	218.69	218.69	218.69
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	17,107.64		17,943.54	17,107.64	17,943.54	17,437.58
मूल प्रति अंश आय रु. 2/- प्रत्येक (अवार्षिकीकृत)- रूपये में (विशिष्ट मदों के बाद)	3.00	(6.02)	(2.34)	(3.02)	(1.30)	(5.94)
तरल प्रति अंश आय रु. 2/- प्रत्येक (अवार्षिकीकृत)- रूपये में (विशिष्ट मदों के बाद)	0.90	(6.02)	(2.34)	(3.02)	(1.30)	(5.94)

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2020	समाप्त तिमाही 30.06.2020	समाप्त तिमाही 30.09.2019	समाप्त छमाही 30.09.2020	समाप्त छमाही 30.09.2019	समाप्त वित्त वर्ष 31.03.2020
	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अनअंकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल राजस्व	5,519.40	2,697.00	4,554.63	8,216.40	8,887.37	18,199.14
अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (कर तथा विशिष्ट मदों से पूर्व)	342.02	(649.96)	(243.97)	(307.94)	(202.69)	(697.51
कर से पूर्व अवधि के शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	342.02	(649.96)	(243.97)	(307.94)	(132.92)	(628.49
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	341.71	(650.09)	(243.97)	(308.38)	(132.92)	(628.49
अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिये लाभ/ (हानि) (कर से पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर से पश्चात्) शामिल]	342.54	(649.93)	(244.04)	(307.39)	(141.13)	(637.12
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी [सम मूल्य रु. 2 प्रति शेयर]	218.69	218.69	218.69	218.69	218.69	218.69
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों एवं गैर-नियंत्रित ब्याज के अतिरिक्त आरक्षित	17,959.44		18,762.83	17,959.44	18,762.83	18,266.8
मूल प्रति अंश आय रु. 2/- प्रत्येक (अवार्षिकीकृत)- रूपये में (विशिष्ट मदों के बाद)	3.13	(5.95)	(2.23)	(2.82)	(1.22)	(5.75
तरल प्रति अंश आय रु. 2/- प्रत्येक (अवार्षिकीकृत)- रूपये में (विशिष्ट मदों के बाद)	0.93	(5.95)	(2.23)	(2.82)	(1.22)	(5.75

उपरोक्त सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमार्ह एवं छमाही के लिये एकल तथा समेकित परिणामों के विस्तृत प्रारूप का विवरण है। 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के एकल तथा समेकित परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईटों (<u>www.nseindia.com/www.bseindia.com</u>) तथा कम्पनी की वेबसाईट (<u>http://www.tatasteelbsl.co.in/financial-reporting.html</u>)

पर उपलब्ध है। उपरोक्त वित्तीय परिणाम 14 अक्टूबर, 2020 को आयोजित संबंधित बैठकों में अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा किये गये एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये।

टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के लिये

राजीव सिंघल क्रोलकाता प्रबंध निदेशक 15 अक्टूबर, 2020

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्चा सचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि.

इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडीट लिमिटेड (CIN:U65923DL2006PLC150632) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टशन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार <mark>कबाना एग्रो फूड्स (उनके पार्टनर द्वारा), अंकित कपूर</mark> और कमलेश कपूर को 17.02.2020 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं HLLANOI00397187 की राशि रू.2,03,01,147/- (रुपए दो करोड़ तीन लाख एक हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) और 17.02.2020 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 14.10.2020 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा <mark>राशी रू.2,03,01,147/- (रुपए दो करोड़</mark> <mark>तीन लाख एक हजार एक सौ सैंतालीस मात्र) 17.02.2020</mark> के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडीट लिमिटेड के आधीन होगा.

धारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

लॉट नं.6, संपुर्ण तिसरी मंजिल (रूफ /टेरेस अधिकार के साथ), एरिया मापित 299.15 स्के.यार्डस भादर्श भवन कॉ-ओपरेटीव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के ले आउट प्लान में स्थित, नोर्थ वेस्ट एवेन्यु रोड पर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली -110026, अविभाज्य एरिया मापित 263 स्के.फीट नगभग, कुल एरिया में से मापित 790 स्के.फीट लगभग स्टील्ट पार्किंग में, प्लॉट नं.6 जो निम्ननुंसार

पश्चिम: प्लॉट नं.8 पूर्व : प्लॉट नं.4 प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 14.10.2020 इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडीट लिमिटेड स्थान: नई दिल्ली

परिबद्ध है

€ Edelweiss ईंडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

रेटेल केन्द्रीय कार्यालय : प्रथम तल, ईंडेलवीज हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, निकट मुम्बई यूनिवर्सिटी, कलीना, मुम्बई 400

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित

प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की वित्तीय आस्तियों

तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत। अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत ईंडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (''ईएआरसी'') का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) को

राशि को इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ईएआरसी को अदा करने के लिए कहा जाता है। कर्ज के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में क्रमशः कथित कर्जदार(रों) द्वारा ईएआरसी

के पास निम्नलिखित आस्ति गिरवी रखी गयी है।

क्र. कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का नाम/ऋण खाता

संख्या तथा कोड

अंशु मार्बल एण्ड टाइल हाउस, इसके प्रोप. सतीश

दिहया (कर्जदार)/कृष्णा (सह-कर्जदार)/सतीश कुमा

ऋण खाता सं. : 962305

पश्चिम : म.नं. ९४६, उत्तर :सडक २२.० मीटर, दक्षिण : म.नं. ९४४.

सीआईएन :U67100MH2007PLC174759

Date: October 16, 2020 28.09.2020

विन की भूमि के आनुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य तथा अपक्षपाती स्वामित्व अधिकार सहित, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 6352, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 27.04.2006, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : दिल्ली, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : एनए पश्चिम : एनए, उत्तर : एनए, दक्षिण : एनए।

13(12) के तहत प्रत्ते शाक्तयां के उपयोग में आर्थकृत प्राधिकारा ने निन्नालिखित कंजदार रो) की उनके लिए निर्गत जो नीचे भी दिया गया है, समद्ध माँग सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने हेल लिए निर्गत जो नीचे भी दिया गया है, समद्ध माँग सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने हेल लिए कहते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक माँग सूचना निर्गत की है। उपर्युक्त के सम्भूण भाग, एम.सी. सीमा में। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 2466, विक्रय विलेख किया गाँग सूचना में नीचे लिखित तिथि (यों) से भुगतान सीमाएँ : पूर्व : 29 फीट मेहल का प्लॉट, पश्चिम : 28 फीट गली, उत्तर : 30 फीट जय दयाल का प्लाट, दक्षिण : की तिथि तथा/अथवा कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के जीवन दास का प्लॉट। साथ पठित कर्ज के अनुान्ध के तहत वसूलीकृत, देय तिथि तक भावी याज सहित यहाँ नीचे उल्लिखित

. सर्विस लिमिटेड 1,20,97,394,58/-तम्पत्ति का विवरणःबंधक सम्पत्ति प्लॉट नया मकान नं. 945-पी, सेक्टर-15, र्आन एस्टेट, सोनीपत का सम्पर्ण भाग, माप 230.45 वर्ग मीटर अर्थात 275.61 वर्ग गज, मुश्यल रोड, तिकट गाउँगो गार्डन, सोनीपत-हरियाणा–13001 ए स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/बासिका नं./कन्वीएंस डीड : 1,008, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) 30.04.2007, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय, स्थान : सोनीपत सम्पत्ति की सीमाएं : पूर्व : सड़क 10.475 मीटर चौड़ी

ट्रस्ट तथा एसाइनर का

एवं एचडीली फाइनेंशियल

माँग सूचना की

तिथि तथा राशि

तथा

2 बालकिशन सिनसिनवा (कर्जदार), सरिता सिनसिनवा 28.09.2020 ईएआरसी टस्ट एससी-375 ऋण खाता सं. : 934000 रु. 71,39,176.56/ सर्विस लिमिटेड

तं. 7747/82 का सम्पर्ण भाग, माप क्षेत्रफल 20.40 वर्ग मीटर, फसीह बिल्डिंग, निकट घंटाघर, रोशनआरा रोड, सजी . ांडी, दिल्ली–110007 पर स्थित, विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 9,591, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 03.11.2014, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : दिल्ली, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : मेन रोड, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति भाग, उत्तर : अन्य सम्पत्ति भाग, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति भाग।

भारतबुक डिपो इसके प्रोप. विशन चावला के माध्यम से ईएआरसी ट्रस्ट एससी-375 28.09.2020 एवं एचडीली फाइनेंशियल (कर्जदार)/राज रानी (सह-कर्जदार)/सीमा चावला (सह-कर्जदार)/विश्न चावला (सह-कर्जदार)/राकेश रु.90,53,490.18/ सर्विस लिमिटेड चावला (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. : 1095731

पश्चिम 23 फीट 2/ऽइँच, उत्तर से दक्षिण 38 फीट 11 इंच कुल 100 वर्ग गज़, सोनीपत, एम.सी. आबादी मशद मोहल्ला*, तहसील एवं जिला सोनीपत, हरियाणा-131001 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 4890, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 30.07.2015, उप-रजिस्टार कार्यालय स्थान सोनीपत, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : जेठानन्द का मकान, पश्चिम : मेन रोड पर दरवाजा, उत्तरे : गोपाल दास क कान, दक्षिण : पंज राम का मकान हॉल रामा ऑप्टिकलस।

दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजूकेशन ईएआरसी ट्रस्ट एससी-375 28.09.2020 (कर्जदार)/महेन्द्र सिंह (सह-कर्जदार)/किता।। देवी एवं एचडीली फाइनेंशियल (सह-कर्जदार)/विकाश कुमार मलिक ₹.84,54,123.12/ (सह-कर्जदार)/मीनाक्षी (सह-कर्जदार)/प्रताप सिंह ऋण खाता सं. : 1156967

सम्पत्ति का विवरण :सम्पत्ति मकान नं. खेवट सं. 1207,1210,1211,1257,1258, खाता 1933,1936,1937,1993,1994खसरा नं. 7457/2484/3-7, 2485 मिन (0-3), 2487(0-4), 2488(2-4), 1933,1936,1937,1993,1994खसरा नं. 7457/2484/3-7, 2485 ामन (0-3), 2487(0-4), 2488(2-4), 2489(3-18), 2490 मिन (4-18), 7289/ 2482(0-12), 7290/2482(3-11), 2483(4-8), सम्मत्ति का विवरण बंधक सम्मत्ति प्लॉट/दक्षिणी भाग, सं. ई-81 एवं ई-82 खसरा नं. 43/123 (माप 201.6 वर्ग 7458/2484(2-17), 2485 मिन (2-14), 2486(2-3) जो 30 बीधे 19 विस्ते का 6/619 हिस्सा है का सम्मूर्ण मान में से 100 वर्ग गंज) का सम्मूर्ण भाग, जवाहर कॉलोनी सारन, फरीदाबाद-121001 का सम्मूर्ण भाग, कुल रुकबा 6 विस्वा हदास्त सं. 174, सोनीपत में स्थित, एस.सी. पट्टी माम चन्द कॉलोनी, सुभाष चौक, निकट मान, कुल रुकबा 6 विस्वा हदास्त सं. 174, सोनीपत में स्थित, एस.सी. पट्टी माम चन्द कॉलोनी, सुभाष चौक, निकट मान, कुल रुकबा 6 विस्वा हदास्त सं. 174, सोनीपत में स्थित, एस.सी. पट्टी माम चन्द कॉलोनी, सुभाष चौक, निकट सं. 174, सोनीपत में स्थित। विक्रय मुख्य क्रिया ह्या क्रिया का स्थाप क्रिया क् वलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 3131, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 05.09.1990, अन्य सम्पत्ति, उत्तर : सम्पत्ति का शेष भाग, दक्षिण : रास्ता 15 फीट। उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : सोनीपत, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : हरिन्दर सैनी का मकान, पश्चिम : गली, उत्तर : ाली, दक्षिण : धनकड़ का मकान।

ईशा ट्रेडिंग कं. (कर्जदार)/पीयूष माहेश्वरी ईएआरसी ट्रस्ट एससी-375 28.09.2020 (सह-कर्जदार)/आशीष माहेश्वरी एवं एचडीली फाइनेंशियल (सह-कर्जदार)/श्रीमती अंकुर माहेश्वरी रु.1,37,94,607.31/ सर्विस लिमिटेड (सह-कर्जदार)/श्रीमती आशा रानी माहेश्वरी(सह-कर्जदार)

सम्पत्ति का विवरण :सम्पत्ति सं. 1/7460 का सम्पूर्ण भाग, माप 85 वर्ग गज, खसरा नं. 219 में से, साथ ही अन्तिम मंजिल तक अधिकार सहित उस पर निर्माण, शिव मार्ग आबादी, शिवाजी पार्क, ईस्ट गोरख पार्क, ग्रामबाबरपर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित। इसके पश्चात ''कथित सम्पत्ति' सन्दर्भित। विक्रय विलेखःअन्तरण विलेखः/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 3241, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 37562, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : दिल्ली, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : 30 फीट रोड, पेश्चिम : 15 फीट रोड, उत्तर : अन्य के प्लॉट,

6 एडवान्स जेन्ट्स वियर इसके प्रोप. दीनानाथ चावला के 28.09.2020 माध्यम से (कर्जदार)/अमित चावला एवं एचडीली फाइनेंशियल सह-कर्जदार)/ललिता देवी (सह-कर्जदार)/दीनानाथ सर्विस लिमिटेड चावला (सह-कर्जदार)

तथा उत्तर से दक्षिण 38 फीट कुल 101 वर्ग गज, इन्दरपुरी आबादी, तहसील एवं जिला सोनीपत, हरियाणा–131001 में स्थित, एम.सी. सीमा सोनीपत में। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 4191, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 26.09.2011, उप-रजिस्टार कार्यालय स्थान : सोनीपत, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व विक्रेता की शेष सम्पत्ति, पश्चिम : रास्ता, उत्तर : युधवीर लूथरा आ हंसराज, दक्षिण : मकान का दरवाजा, गली रास्ता। गणेश ट्रेडर्स इसके प्रोप. श्री सुरेन्द्र कुमार के माध्यम से (कर्जदार)/कैलाश चन्द गर्ग (सह-कर्जदार)/चेतन ईएआरसी ट्रस्ट एससी-375 28.09.2020 एवं एचडीली फाइनेंशियल तथा कुमार गर्ग (सह-कर्जदार)/सुरेन्द्र कुमार ₹.1,79,27,130.01/-

(सह-कर्जदार)/राजकुमार (सह-कर्जदार)/मीनाक्षी गर्ग

(सह-कर्जदार)/बाबू राम गर्ग (सह-कर्जदार)/सुनील

जितेन्द्र मलिक (कर्जदार)/सन्तोष (सह-कर्जदार)

कमार (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या : 857708 121003 का सम्पर्ण भाग, एम.सी. सीमा फरीदाबाद में, विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : सीमाएँ : पूर्व : सम्पत्ति सं. 60, पश्चिम :सम्पत्ति सं. 58, उत्तर : सड़क, दक्षिण : अन्य।

जयबीर सिंह (कर्जदार)/छत्तर सिंह 28.09.2020 ईएआरसी टस्ट एससी-375 (सह-कर्जदार)/संदीप सिंह (सह-कर्जदार)/कृष्णा देवी एवं एचडीली फाइनेंशियल ₹.29,83,929.44/-. गर्विस लिमिटेड ऋण खाता सं. : 966042 सम्पत्ति का विवरण :बंधक सम्पत्ति/प्लॉट माप 133 वर्ग गज (30'x 40')का सम्पूर्ण भाग, खेवट सं. 325/319, खाता

सं. 426, मुस्तिल एवं किला सं. 28/21/1 (2-6), 20/2(2-18) की निर्मित भूमि में से, जौहरी नगर, रेलवे लाइन पार, बहादुरगढ़ में स्थित, एम.सी. सीमा में, तहसील बहादुरगढ़, जिला झँज्झर, हरियाणा-124507. विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 4,974, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) 09.01.2015, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : बहादुरगढ़, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : गली, पश्चिम : प्रेम सिंह का मकान, उत्तर : गली, दक्षिण : आशानन्द का मकान।

ऋण खाता सं. : 810562 एवं एचडीली फाइनेंशियल ₹.49,78,047.85/ सम्पत्ति का विवरण :प्लॉट/सम्पत्ति (माप 272.5 वर्ग गज, खसरा नं. 110/4 के ओटीएफटी 295 वर्ग गज में से) का

28.09.2020

तथा दिगराम का प्लॉट, पश्चिम : प्लॉट दिगराम, उत्तर : प्लॉट दिगराम, दक्षिण : रास्ता आम एवं दिगराम प्लॉट। 28.09.2020 एवं एचडीली फाइनेंशियल (सह-कर्जदार)/नवीन त्यागी (सह-कर्जदार) तथा ऋण खाता संख्या : 1293279 ₹.77.25.779.76/-सर्विस लिमिटेड

गह, वर्ष) : 09.09.2003, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : बहादुरगढ़, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : गली 15 फीट चौड़ी

नं./कन्वीएंस डीड : 12336, चिक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 13.05.1999, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, उप-राजस्ट्रार कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 22.07.2013, वर्ष कार्यालय स्थान डीड : 1714, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्य) : 22.07.2013, वर्य : 22.07.2013, शाहदरा, दिल्ली, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : सङ्क 15 फीट चौड़ी, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दिल्ली, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : कली, पश्चिम : गली, उत्तर : मकान नं. II/329 तथा श्री राम दास की सम्पत्ति

(सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या : 1601334 5.1.10.35.509.65

1 1444 4164 6444 214 444 2146 47 41644	20.07.2020	64011/11 2/0 4/1/11
कर्जदार)/कर्मेन्द्र सिंह (सह–कर्जदार)/दीप्ति सिंह	तथा	एवं एचडीली फाइनेंशि
(सह–कर्जदार)	₹.76,07,369.14/-	सर्विस लिमिटेड
ऋण खाता सं. : 1394320		
ा विवरण : बंधक सम्पत्ति प्लॉट सी-265 क्षेत्रफल ⁻	1037 वर्ग मीटर, इंडस्टि	यल एस्टेट ताला नगरी.

विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 4051, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 31.03.2012, उप-रिजस्टा कार्यालय स्थान : अलीगढ़, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : 24 मीटर चौड़ी सड़क सं. 10, पश्चिम :प्लॉट सं. सी-264 उत्तर :18 मीटर चौड़ी सड़क सं. 12, दक्षिण :प्लॉर्ट सं. ए-57.

महरा जनता (नम्बदार)/नाता दवा जनत	26.09.2020	\$601/41 \$40 64/41-212
(सह–कर्जदार)/राजेन्द्र कुमार अंचल	तथा	एवं एचडीली फाइनेंशियल
(सह–कर्जदार)/राजेन्द्र कुमार अंचल	रु.77,51,611.28/−	सर्विस लिमिटेड
(सह-कर्जदार)/महेश कुमार (सह-कर्जदार)		
ऋण खाता संख्या : 700634		

सं. 81/सी का सम्प्रण भाग, भूमि माप 100 वर्ग गज लगभग पर निर्मित, ग्राम राजपुरा, छावनी, स्टेट बैंक कॉलोनी नक प्याऊ के पीछे, दिल्ली–110009 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 36 वेक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 07.01.2002, उप-रजिस्टार कार्यालय स्थान : दिल्ली, सम्पत्ति की सीमापं पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : 15 फीट गली, उत्तर : सम्पत्ति सं. 81-बी, दक्षिण :सम्पत्ति सं. 23/2.

ऋण खाता संख्या : 1415355 ₹.42,26,540.2/ 5 का सम्पूर्ण भाग, मौजा सरन, तहसील बल्लाभगढ़, जिला गुरुग्राम अब जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 4005, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष)

28.09.2020 मकेश अंचल (कर्जदार)/महेश अंचल र्रगुआस्सी दस्य ग्रमसी-३७५ (सह–कर्जदार)/राजेन्द्र कुमार अंचल ₹.85,20,037.58/ सर्विस लिमिटेड

त्ति का विवरण :बंधक सम्पत्ति सम्पूर्ण प्रथम तल का भाग, फ्री होल्ड बिल्ट अप सम्पत्ति के निर्मित भाग स सं. 81/सी का सम्पूर्ण भाग, भूमि माप 100 वर्ग गज लगभग पर निर्मित, ग्राम राजपुरा, छावनी, स्टेट बैंक कॉलोनी नानक प्याऊ के पीछे, दिल्ली-110009 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड

ती सीमाएँ : पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : 15 फीट गली, उत्तर : सम्पत्ति सं. 81–बी, दक्षिण :सम्पत्ति सं. 23/2. नीरा देवी (कर्जदार)/बीरेन्द्र कमार (सह-कर्जदार) 28.09.2020 ईएआरसी टस्ट एससी-375

रु.37,11,722.8/ सर्विस लिमिटेड

एवं एचडीली फाइनेंशिय ₹.60,92,656.32/-सर्विस लिमिटेड ऋण खाता संख्या : 995819 सम्पत्ति का विवरण :बंधक सम्पत्ति सं. प्लॉट सं. 141(2/2) खसरा नं. 302 का सम्पूर्ण भाग, ग्राम धुाना, परगन लोनी, गाजियाााद-201003 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 33129, विक्र

विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 07.11.1986, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : गाजियाबाद, सम्पत्ति की सीमार्प पूर्व : 51 फीट चौड़ा, पश्चिम : 51 फीट चौड़ा, उत्तर : 25 फीट चौड़ा, दक्षिण : 25 फीट चौड़ा।

(सह-कर्जदार)/सुधा रानी (सह-कर्जदार) रु.51.76.958.99 सर्विस लिमिटेड ऋण खाता संख्या : 1058271 त्ति का विवरण : बंधक सम्पत्ति मकान 603, माप 125 वर्ग गज अथवा 104.51 वर्ग मटीर कवर्ड एरिया 34.1

गलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 2880, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) 17.05.2002, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : गाजियाबाद, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : रास्ता, पश्चिम : बलबीर का नकान, उत्तर : मुकेश कुमार गुप्ता का मकान, दक्षिण : के.पी. सिंह का मकान।

प्रमोद कुमार शर्मा (कर्जदार)/मनोरमा देवी 28.09.2020 ईएआरसी टस्ट एससी-375 ऋण खाता संख्या : 1695497 ₹.54.23.210.43/ सर्विस लिमिटेड

नगम सं. 673 II में. फी होल्ड भिम माप 60.1/2 वर्ग गज का सम्पर्ण भाग, गली घंटेश्वर, कटरा नील, चांदर्न चौक, दिल्ली–110006 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 8307, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 01.02.2006, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : दिल्ली, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : गली एवं अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : मकान नं. 673 का शेष भाग।

ऋण खाता संख्या : 1058865 ₹.47,70,091.10/ सम्पत्ति का विवरण :बंधक सम्पत्ति सं. प्लॉट सं. 11 (माप 60 वर्ग मीटर) का सम्पर्ण भाग, लॉक-ई, सेक्टर-गाम

: गौतम बुद्ध नगर, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट सं. 10, पश्चिम :प्लॉट सं. 12, उत्तर : 12 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण : हरित पटटी 28.09.2020 रोहित यादव (कर्जदार)/मोहित यादव ईएआरसी टस्ट एससी-375

(सह-कर्जदार)/प्रियंका रावत एवं एचडीली फाइनेंशियल (सह-कर्जदार)/आरआई रियलकॉन पा.लि. इसके ₹.44,37,241.74/ सर्विस लिमिटेड निदेशक रोहित यादव के माध्यम से (सह-कर्जदार)/इन्द्रा (सह-कर्जदार)/अत्तर सिंह ऋण खाता संख्या : 683608

. मित का विवरण :बंधक सम्पत्ति तीसरी मंजिल, माप क्षेत्रफल 200 वर्ग गज अर्थात 167.22 वर्ग मीटर, सम् सं. आरजेड-19ीं (छत के अधिकार सहित), भूमि माप 200 वर्ग गज अर्थात 167.22 वर्ग मीटर के आनुपातिक, अविभाजित, अविभाज्य एवं अपक्षपाती सहित में से, खसरा नं. 69/10/1 का सम्पूर्ण भाग। ग्राम पालम, दिल्ली राज्य, 'पुरम नगर' कॉलोनी, गली नं. 7, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण . लेख/वासिका नं./कर्न्वीएंस डीड : 3955, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 19.04.2010, उप-रजिस्ट्रान

सुनील कुमार शर्मा (कर्जदार)/रजनी शर्मा (सह-कर्जदार) एवं एचडीली फाइनेंशियल

स्टेयरकेस के अधिकार सहित, बिल्ट अप सम्पत्ति सं. II/234 पुराना सं. II/215 के अविभाजित एवं अपक्षपात सम्पत्ति का विवरण अंधक सम्पत्ति सं. म.नं. के-80/14, खसरा नं. 456 का सम्पूर्ण भाग, माप 100 वर्ग गज, उस पर विमित्त सभी कुछ तथा अन्तिम मंजिल तक निर्माण के अधिकार सहित, भूमि माप क्षेत्रफल 64.38 वर्ग निर्मित सभी कुछ तथा अन्तिम मंजिल तक निर्माण के अधिकार सहित, भूमि माप क्षेत्रफल 64.38 वर्ग मीटर, खसरा नं. 642 में से, का सम्पूर्ण भाग, ग्राम चन्द्रावली उर्फ शाहदरा, पुरानी आबाद दिल्ली लाल डोरा आ मोहल्ला, प्राप्तिम घोंडा, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110053 में स्थित। विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस ने किन्ती विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस ने किन्ती विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस ने किन्ती विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस ने किन्ती विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस ने किन्ती विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस ने किन्ती विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस ने किन्ती विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/अन्तरण विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस ने किन्ती विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख

की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। कर्जदारों को उपर्युक्त आस्तियों को विक्रय, पट्टे अथवा अन्य किसी माध्यम से ईएआरसी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके तहत निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन में सहयोग करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार जेल जाने तथा/अथवा जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

ईएआरसी टस्ट एससी-375

NOTICE Notice is hereby given that the following Trading Member of the Metropolitar Stock Exchange of India Limited (the Exchange) has been declared a Defaulter under Byelaw 2(B) of Chapter XV and Expelled under Byelaw 2 of

MSE

METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.

Chapter XV of the Byelaw of the Exchange. SEBI Reg. No. Declaration Date Member Name

Modex International Securities INZ000211434 September 16, 2020 The constituents of the aforementioned member are hereby advised to lodge claims, if any, in the prescribed claim form, against the above mentioned member within 3 months from the date of this notification. No

claims filed beyond 3 months will be entertained by the Exchange against the above mentioned member, and it shall be deemed that no such claims exist against the said member. The claims filed against the above mentioned member will be dealt with in accordance with the Byelaws, Rules Regulations and the procedures of the Exchange. The maximum compensation limit per investor is Rs. 2 lakhs out of the

Investor Protection Fund if found due and payable under the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange. The claim form along with the relevant papers may be sent to the Defaulters

Committee Section of the Exchange at Metropolitan Stock Exchange of India Limited', Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C-62, G- Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400098. The claim form may be downloaded from https://www.msei.in or may be obtained from the corporate office of the Exchange or the regional / branch offices of the Exchange. The authorised persons affiliated with the above mentioned member are not authorised henceforth to deal in that capacity. The list of such authorised persons is available on http://www.msei.in/ . Investors may take note of the

For Metropolitan Stock Exchange of India Ltd

Senior Vice president

Defaulters' Committee Section

Place: Mumbai

2 1 0 1 0		_					
मैसर्स शक्ति इंजीनिया	रंग वक्से इसके	प्रोप. राजेश शम	28.09.2	2020	इएआर	स्सी ट्रस्ट एससी−3	375
के माध्यम र	ते (कर्जदार)/च	ग्न्द्र शर्मा	तथ	ſ	एवं ए	चडीली फाइनेंशिय	ग्ल
(सह–कर्जदार)/भगव	ांती शर्मा (सह	–कर्जदार)/राजेश	र.40,81,15	59.88/-	,	सर्विस लिमिटेड	
शर्मा	(सह-कर्जदार	()					
ऋण खा	ता संख्या : 93	3934					
	_		-				

13 मैसर्स त्रिदेव मोटर्स इसके प्रोप. कर्मेन्द्र सिंह के माध्यम ईएआरसी टस्ट एससी-375

कजदार)/कमन्द्र सिंह (सह-कजदार)/दाप्ति सिंह (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. : 1394320	तथा रु.76,07,369.14/-	एव एचडाला फाइनाः सर्विस लिमिटेड
। विवरण : बंधक सम्पत्ति प्लॉट सी-265 क्षेत्रफल	1037 वर्ग मीटर, इंडस्ट्रि	यल एस्टेट ताला नगरी,
। एवं तहसील कोडल जिला अलीगढ उत्तर पटेऽ	1-202001 का सम्पर्ण	भाग । विकय विलेख/३

सम्पत्ति का विवरण :बंधक सम्पत्ति सम्पूर्ण प्रथम तल का भाग, फ्री होल्ड बिल्ट अप सम्पत्ति के निर्मित भाग सम्पत्ति

स्व. श्री मोहिन्दर सिंह (कर्जदार)/अजीत सिंह ईएआरसी ट्रस्ट एससी-375 28.09.2020 (सह-कर्जदार)/आशा कौर (सह-कर्जदार) एवं एचडीली फाइनेंशियत

14.12.1971, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : फरीदाााद, सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : गली 15 फीट, उत्तर : प्लॉट सं. 4, दक्षिण :प्लॉट सं. 6.

(सह-कर्जदार)/गीता देवी अंचल (सह-कर्जदार)

14350 विकय विलेख तिथि (दिनांक माह वर्ष) : 23 11 2001 उप-रजिस्टार कार्यालय स्थान : दिल्ली सम्पत्ति

नितिन शर्मा (कर्जदार)/मंजू शर्मा 28.09.2020 ईएआरसी टस्ट एससी-375 (सह-कर्जदार)/डी.पी. शर्मा (सह-कर्जदार)

> पंकज तोमर (कर्जदार)/कंवर पाल सिंह 28.09.2020

वर्ग मीटर का सम्पर्ण भाग, मालीवाडा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 में स्थित। विक्र

रामधनी यादव (कर्जदार)/प्रमीला यादव 28.09.2020 ईएआरसी टस्ट एससी-375

121003 का सम्पूर्ण भाग, एम.सी. सीमा फरीदाबाद में, विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/बासिका नं./कन्चीएंस डींड : [, ग्रेटर नोएड, जिला-गीतम बुद्ध नगर, उ.प.-201308 में स्थित। विक्रय विलेख/आसिका नं./कन्चीएंस डींड : [, ग्रेटर नोएड, जिला-गीतम बुद्ध नगर, उ.प.-201308 में स्थित। विक्रय विलेख अतिक विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 24.06.1997, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान : फरीदाबाद, सम्पत्ति की नं./कन्बीएंस डींड : 1333, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, माह, वर्ष) : 27.02.2003, उप-रजिस्ट्रार कार्यालय स्थान

सम्पूर्ण भाग, मौजा-बमनीली, तहसील ाहादुरगढ़ तथा जिला झञ्झर, बहादुरगढ़, हरियामा-124507 पर स्थित, एम.सी. सीमा में, तहसील बहादुरगढ़, विक्रय विलेख/अन्तरण विलेख/वासिका नं./कन्वीएंस डीड : 2919, विक्रय विलेख तिथि (दिनांक, भूस्वामी की भूमि, दक्षिण : 16 फीट चौड़ा रास्ता।

सम्पत्ति का विवरण : बंधक सम्पत्ति दूसरी मंजिल, सीलिंग स्तर तक छत के अधिकार रहित, कॉमन प्रवेश रास्ता

सं. II/234, दक्षिण :मकान नं. II/235. यदि कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार ईएआरसी को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो ईएआरसी लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित कर्जदार(रों) के सम्पूर्ण जोखिम पर अधिनयम

> अधिकत प्राधिकारी कृते ईडेलवीज एसेट रीकंस्ट्रवशन कम्पनी लिमिटेड

स्थान :मुमई तिथि : 16.10.2020

Street upbeat on Dr Reddy's

Good sales momentum, Covid treatment portfolio driving analysts to upgrade earnings estimates

UJJVAL JAUHARI New Delhi, 15 October

r Reddy's Laboratories (DRL) continues to be in the limelight on product-specific news, further improving its business outlook. The settlement of a patent dispute for a large drug to be launched in the US had already lifted sentiment, pushing the stock to fresh highs in September.

DRL received attention recently for having reapplied to conduct Phase 3 human clinical trials for the Covid-19 vaccine candidate Sputnik V. Any success will add to the company's already strong growth prospects. Therefore, analysts see more gains ahead, even though the stock has already outperformed the Nifty Pharma and Nifty indices in the past few months.

The company has ample near-term earnings catalysts both in the India and US businesses. DRL has been posting strong growth in emerging markets and Europe, too, while opportunities in the active pharmaceutical ingredients (APIs) market have helped it see strong growth in the pharmaceuticals services and active ingredients segment. Added to that is mileage from an already launched Covid-19 treatment portfolio in India.

In the US, the company has changed its business approach to niche opportunities and is focusing on controlling costs. After divesting some loss-making proprietary products, DRL has launched 20-plus products every year on average and Nomura estimates each product to initially contribute \$5-7 million annually.

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, 15 October

A high-powered committee.

which is looking into refunds

for PACL investors, on

Thursday asked investors

having claims of up to ₹7,000

to rectify errors in their appli-

operational for such investors

to view status of their claim

applications. PACL, which

had raised money from pub-

lic in the name of agriculture

and real estate business, was

found by Sebi to have

A portal has been made

cation forms by October 31.



IN GOOD HEALTH Figures in ₹ crore					
	EPS (₹)	Revenue	Ebitda	Net profit	
FY20	184	17,460	4,437	3,063	
YoY in %	63	14	33	63	
FY21E	161	19,109	4,565	2,637	
YoY in %	-13	9	3	-14	

injectables portfolio, where competition ment Kuvan, and pain relief over-thecounter Voltaren gel are expected to drive near-term sales, while market share gains in opiod treatment Subaxone generics

0ct 1,'19

BSE Sensex

103.7

Oct 15,'20

(market size \$7.5 billion) with the novator company in September.

With US growth prospects remaining firm, DRL has increased its focus on India and other markets. Domestic growth could be propelled by the acquisition of Wockhardt's product portfolio. Nomura expects a strong pickup in primary sales in Q2FY21 for the portfolio as supply constraints are addressed.

The launch of Covid-19 treatment dugs is another trigger. DRL launched inlicensed drug Favipiravir in June in India. It also had in-licensed Favipiravir for emerging markets (ex-Japan, Russia and China), and with Fujifilm receiving positive data from Phase 3 study, the growth trajectory might improve.

DRL has an exclusive licence with Gilead to manufacture and market Remdesivir in India. Dr Reddy's has meaningful presence in domestic markets for HCQS, another Covid treatment. Any positive development on Sputnik V, for which DRL tied up for clinical development in India, will be an additional trigger. The downside risk is if some of them don't deliver the anticipated results.

Meanwhile, for the September quarter, analysts at Motilal Oswal Securities expect DRL's India revenue to grow by 20 per cent year-on-year (YoY) on better traction in the chronics portfolio and addition of Wockhardt portfolio. The US sales are seen growing 21 per cent YoY to \$245 million, driven by new launches. DRL's profit before tax is estimated to grow 18 per cent YoY for the quarter. Given the multiple triggers, analysts at Nomura have raised their target price for DRL to ₹6,036. It closed at ₹5,055 on Thursday.

Switch to regular policy for broader coverage

Waiting period gains of Covid policy stay intact

BINDISHA SARANG

With the pandemic showing no sign of ending anytime soon, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) has offered relief to policyholders, allowing those who bought low-cost, standard Covid-19 policies to switch to comprehensive health insurance policies.

The short-term Covid polices — Corona Kavach and Corona Rakshak had found many takers, and experts believe allowing portability is a positive step. S Prakash, MD of Star Health and Allied Insurance, says: "It will nudge low-cost, short-term health insurance buyers to become routine health insurance buvers.'

Irdai's guidelines cover renewal. migration (moving to a comprehensive health policy offered by the same insurer) and portability (moving to a comprehensive policy of another insurer) of Covid-specific health policies. The move is timely. Says Gurdeep Singh Batra, head (retail underwriting) Bajaj Allianz General Insurance: "The purpose of the Covid policies is to mainly cover the treatment costs against the immediate health risks that people face due to the pandemic. And the Covid-19 vaccine is yet to come."

Renewal: Guidelines apply to both Corona Rakshak and Corona Kavach policies. They can be renewed for 3 1/2, 6 1/2 or 9 1/2 months before the existing policy expires Says Amit Chhabra, head (health business), PolicyBazaar: "Those who were unable to buy a plan with a higher sum insured in the initial months can now

enhance the sum insured if

they feel that treatment costs

could exceed the cover they have." The policyholder may enhance the sum insured at the time of renewal. For any increase, the waiting period will start afresh only for the enhanced por tion of the sum insured. On renewal, coverage will continue without the additional waiting period of 15 days. Renewal is permitted till March 31. Experts say these policies should ideally not be renewed. Naval Goel, CEO of PolicyX.com, says: "Don't renew these policies unless you can't afford a new comprehensive health policy, or are unable to get one, as you

HOW PORTING TAKES PLACE

- The insured must approach a new insurer at least 45 days before the current policy expires
- They must fill the proposal form, fill in the details asked for, and provide copies of their policy
- New health insurer will approach existing insurer to learn about the person's medical and claims history
- New health insurer may accept or reject the proposal, based on the firm's underwriting norms
- It must decide within 15 days whether to accept or reject the proposal
- If it delays beyond that, it will have to compulsorily accept the proposal

are uninsurable."

YOUR

MONEY

Migration: In case of Corona Kavach individual policies, insurers can offer migration to any other indemnitybased health product, depending on the option exercised by the policyholder. Says Chhabra: "Customers can

migrate or port to other comprehensive health policies till the end of the policy period of the existing Covid policy. This will help seamlessly move into a cover that provides overall protection, and not just for

The regulator has put in place firm norms regarding waiting period. The circular says: "Where migration is

allowed, accrued gains of waiting period served in the existing Corona Kavach policy shall be protected in respect of coverage for Covid-19, in the migrated policy."

Porting: Customers may port their policy to another insurer. Savs Goel: "Port if you are not happy with the service, price, or terms of the comprehensive plan offered by your current insurer." In case of porting, too, the accrued gains of waiting period served in the existing policy will be protected in respect of coverage of Covid-19.



	EPS (₹)	Revenue	Ebitda	Net profit
FY20	184	17,460	4,437	3,063
YoY in %	63	14	33	63
FY21E	161	19,109	4,565	2,637
YoY in %	-13	9	3	-14
FY22E	196	21,383	5,359	3,207
YoY in %	22	12	17	22
FY23E	241	23,724	6,273	3,831
YoY in %	23	11	17	19
EPS: Earning	s per share;	E: Estimates	Sou	ırce: Bloomber

is limited. This is important looking at the pricing pressure, which has remained high in the US market in past few years. US-focused Among generic

companies, DRL remains IIFL's top pick considering that a string of new launches in the North American market will help sustain growth momentum until FY23. The company's low-competition new

launches such as generics of antibacterial The company has been strengthening its Ciprodex, hyperphenylalaninemia treat-

PACL case: Sebi panel seeks corrections

A panel, headed by retired

Justice R M Lodha, has been

set up to manage refunds

collected more than ₹60,000

crore through illegal collec-

tive investment schemes

(CIS) over 18 years.

bode well, say analysts. Also, the anticipated launch for generics of contraceptive NuvaRing, car-

diovascular treatment drug Vascepa (both in FY22) and myeloma treatment Revlimid (FY23) could improve future prospects. The company settled US patent litigation for potential launch of Revlimid

In July, the committee

had provided a facility to

investors with claim amount

between ₹5,001 and ₹7,000 to

rectify errors in their applica-

tion forms and accordingly,

the web portal was made

In a press release by Sebi

on Thursday, the Lodha panel

said. "Investors or applicants

with claims up to ₹7,000-

whose claim applications

were found deficient, are

again requested to expedite

and rectify the deficiencies,

if any, in their applications

before October 31".

operational from August 1.

Likhitha Infra gains 14% on market debut

Shares of Likhitha Infrastructure gained 14 per cent apiece, following their stock market debut on Thursday.

The stock closed the session at ₹136.6, against the issue price of ₹130 per share. The Hyderabad-based company's

₹61-crore initial public offering had garnered nearly 10x subscription. Likhitha Infra is an oil and gas

pipeline infrastructure service provider. The company provides pipelines for the energy sector as well as for city gas distribution projects

SUNDAR SETHURAMAN



KIOCL LIMITED

(A Government of India Enterprise) CIN-L13100KA1976GO1002974, Bangalore – 560 034. Karnataka State, INDIA

No. KIOCL/TS/BFU/PDS/PKG-10/F-542/ET-233 MSTC E-Commerce Portal Tender No. KIOCL/20-21/ET/233

Date: 16/10/2020

OPEN TENDER NOTICE

KIOCL LIMITED, invites sealed Bids on turnkey Basis from experienced, reputed and competent contractors /firms/ agencies for carrying out Design, Engineering, Manufacture, Supply, Erection, Testing and commissioning of Power Distribution System on turnkey basis for proposed KIOCL forward & backward Integration projects at Blast Furnace Unit, Panambur, Mangalore, Karnataka State.

Bidders should submit bid online through MSTC's e-portal http://www.mstcecommerce.com/eprochome/kiocl/buyer_login.jsp within 17.11.2020 up to 5.00 PM. For details visit: www. kioclitd.in, www.eprocure.gov.in & www.meconlimited.co.in

The bidder shall submit their bids through online mode only on MSTC's e-tendering website along with payment of Tender Fee and EMD.

General Manager (P&TS) Email id: bgmcpts@kioclltd.com Mobile No.: +91 9937290883

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of

E: connect@yashpakka.com

the Company will be held on Saturday, 31st October, 2020 inter-alia, to consider and approve Unaudited Financial Result of the Company for the 2nd quarter ended 30th September, 2020. Further in pursuance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations,

YASH PAKKA

YASH PAKKA LIMITED (Formerly Yash Papers Limited

Regd Office: 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur –208001, Uttar Pradesh Corp Office: Yash Nagar, Ayodhya – 224135, Uttar Pradesh

CIN: L24231UP1981PLC005294 I T: +91 5278 258174

NOTICE

I Website : <u>www.yashpakka.</u>

2015, Trading Window shall remain closed from 1st October, 2020 till 48 hours after declaration of Unaudited Financial Results for the 2nd quarter ended 30th September, 2020 (both days inclusive).

The information in the above notice is also available on the website of the Company www.yashpakka.com and also on BSE Limited

for Yash Pakka Limited

Cipla

Date: 15.10.2020 Place: Ayodhya

Sachin Kumar Srivastava Company Secretary & Head Legal

Coforge Limited Coforge (erstwhile NIIT Technologies Limited) CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravidas Marg, Kalkaji, New Delhi-110019. **Ph**: 91 (11) 41029297 **Fax**: 91 (11) 26414900 Email: investors@coforgetech.com

Website: https://www.coforgetech.com **NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Clause 47(1)(a) of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Compan will be held on Thursday, October 22, 2020, to consider and approve the un audited consolidated and standalone financial results of the Company for the guarter/half year ended September 30, 2020, subject to Limited Review Report by Auditors and to transact such other business, as may be required The trading window shall re-open 48 hours after the declaration of financia results.

The said notice may be accessed on the Company's website a https://www.coforgetech.com/investors/disclosures-under-listingregulations and also on the website of National Stock Exchange a https://www.nseindia.com and BSE Limited at https://www.bseindia.com For Coforge Limited

(Frstwhile NIIT Technologies Limited

Dated: October 15, 2020 Place: Noida

business-standard.com

Lalit Kumar Sharma Company Secretary & Legal Counse

E-mail: cosecretary@cipla.com • Website: www.cipla.com NOTICE

Cipla Limited
CIN: L24239MH1935PLC002380

Regd. Office: Cipla House, Peninsula Business Park,

Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

Tel. No.: (022) 2482 6000 • Fax No.: (022) 2482 6120

A meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 6th November, 2020 inter alia to consider and approve unaudited standalone and consolidated financial results for the guarter and half year ended 30th September, 2020.

In terms of the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the "Trading Window" for dealing in the securities of the Company has been closed from 1st October, 2020 till 8th November, 2020 (both days inclusive).

This information is also available on the Company's website i.e. www.cipla.com under Investor section and on the stock exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For CIPLA LIMITED

Mumbai

15th October, 2020

Rajendra Chopra Company Secretary